

राजस्थान विधान सभा
अष्टम सत्र
कार्य-सूची
गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

I- अजमेर के वार्ड संख्या-34 के प्रकाश रोड़ पुलिया के मोड़ से गोपालगंज नगरा, आनासागर स्कैप चैनल तक जाने वाले नाले को चौड़ा व गहरा करने बाबत् एवं

II- अजमेर के वार्ड संख्या-43 में अनामिका कॉलोनी में पेयजल हेतु नई पाईप लाईन बिछाने बाबत्

(2) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य, विधान सभा, सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के शहर राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(3) श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा, कोटा स्थित इन्द्रा विहार कॉलोनी स्थित कतिपय पार्को में म्यूजिक सिस्टम लगवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

3. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012

(I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

संगम. विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-16)

"राजस्थान राज्य में संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ब) विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012

राजस्थान विशेष न्यायालय
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-14)

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिये और अन्तर्वलित सम्पत्तियों के अधिहरण के लिये विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	42- उद्योग
2.	43- खनिज
3.	13- आबकारी

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 11 अप्रैल, 2012